

Vernacular Declaration:**स्थानीय भाषा में घोषणा:**

The contents hereof have been read over and explained to the applicant by me in vernacular and the applicant has filled up the contents after completely understanding the contents hereof in my presence.

यहां दी गई सामग्री पढ़ ली है और मैंने आवेदक को स्थानीय भाषा में समझा दिया है और आवेदक ने पूर्ण रूप से सामग्री समझने के बाद मेरी मौजूदगी में विवरण भरे हैं।

Name & Signature of the Witness:

गवाह का नाम और हस्ताक्षर:

Witness must be someone other than the advisor/ agent/ employee of the company

गवाह को सलाहकार/ एजेंट/ कंपनी का कर्मचारी नहीं होना चाहिए

To be filled in case of Bank Attestation: (I hereby confirm that the above signature has been verified by me and is matching as per our bank records.)**बैंक अनुप्रमाणन के मामले में भरने पर:** (मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि ऊपर किए गए हस्ताक्षर का सत्यापन मेरे द्वारा कर किया गया है और इसका मिलान हमारे बैंक रिकॉर्ड्स के अनुसार हो रहा है।)

Name of Bank:

बैंक का नाम:

Bank account Number:

बैंक खाता नंबर:

Name of Bank Employee:

बैंक कर्मचारी का नाम:

Bank Employee Code:

बैंक कर्मचारी का कोड:

Branch Name:

ब्रांच का नाम:

Bank Employee Signature and Bank Seal

बैंक कर्मचारी के हस्ताक्षर और बैंक सील

Note: Any of the following documents reflecting the new signature will be accepted as photo identity proof and a copy of same is required to register the new signature.

ध्यान दें: नया हस्ताक्षर किया हुआ निम्न में से कोई भी दस्तावेज़ फ़ोटो पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा और इसकी एक प्रतिलिपि नए हस्ताक्षर पंजीकृत करने के लिए आवश्यक है।

 Driving License

डाइविंग लाइसेंस

 Passport

पासपोर्ट

 Pan Card

पैन कार्ड

 Any Govt. issued ID Card Armed Force ID card with photograph

सरकार द्वारा जारी कोई भी आईडी कार्ड सशस्त्र बल आईडी कार्ड फोटोग्राफ सहित

 Banker's Certificate

बैंकर का प्रमाणपत्र

Please Note (For existing policies): Policy Owner Walk-in is mandatory along with original Policy Document for submission of Signature change request. The original ID proof of the Policy Owner to be mandatorily displayed and submitted at the time of request submission failing which the request will not be accepted.

कृपया ध्यान दें (मौजूदा पॉलिसियों के लिए): हस्ताक्षर बदलने का अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए पॉलिसी के मूल दस्तावेजों के साथ पॉलिसी धारक को आना अनिवार्य है। पॉलिसी धारक का मूल आईडी प्रमाण अनुरोध करते समय अनिवार्य रूप से दिखाया और सबमिट किया जाएगा, ऐसा करने में विफल होने पर अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Any alterations/ corrections made in the form need to be duly signed by PI/PO.

कोई भी बदलाव/ सुधार किए गए आवेदन पत्र पर पीओ/पीआई द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

To be filled by Branch Services (all sign change docs to be uploaded by branch in Talisma for reference): For Office Use Only

शाखा सेवाओं द्वारा भरे जाने के लिए (हस्ताक्षर बदलाव वाले सभी दस्तावेज संदर्भ के लिए शाखा द्वारा तालिस्मा में अपलोड किए जाने हैं): केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

(For New Business Applications): All dual signature declarations to be uploaded by branch in filenet for future ref) Request received from:

(नए व्यवसाय आवेदन पत्रों के लिए): सभी दोहरा हस्ताक्षर घोषणाएं भविष्य के संदर्भ के लिए शाखा के द्वारा फाइलनेट में अपलोड की जाएंगी) निम्न से अनुरोध प्राप्त हुआ:

 FA SM Sales Specified Customer Customer Courier Bank

एफए

एसएम

Sales

Personnel

विक्रय

अधिकारी

Specified

Person

निर्दिष्ट

व्यक्ति

Customer

ग्राहक

Customer

representative

ग्राहक प्रतिनिधि

Courier

कूरियर

Bank

बैंक

Photo/ Date of Birth and Father's name verified:

फोटो/ जन्मतिथि और पिता का नाम सत्यापित किया गया:

 Yes No

हां

नहीं

Employee Code

कर्मचारी कोड

Designation

पदनाम

Signature

हस्ताक्षर

"PNB MetLife branch seal and sign"

"पीएनबी मेटलाइफ शाखा की मुहर और हस्ताक्षर"

D D M M Y Y Y Y

Acknowledgement Slip**अभिस्वीकृति पर्ची**

Received a request for

निम्न पॉलिसी संख्या के लिए

on _____ at _____

शामिल है

को

against Policy Number _____

अनुरोध प्राप्त हुआ

am/pm

पूर्वाह्न/अपराह्न बजे

Employee Code

कर्मचारी कोड

Employee Name

कर्मचारी का नाम

Date and time Stamp / Seal of Branch

दिनांक और समय स्टाम्प/शाखा की मुद्रा

Note: IRDAI or its officials do not involve in activities like sale of any kind of insurance or financial products nor invest premiums. IRDAI does not announce any bonus. Anyone receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint along with details of phone call & number.

नोट: IRDAI या इसके अधिकारी किसी भी प्रकार के बीमा या वित्तीय उत्पादों की बिक्री जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं और न ही प्रीमियम का निवेश करते हैं। IRDAI किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। इस तरह के फोन कॉल प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति से अनुरोध है कि वह फोन कॉल और नंबर के विवरण के साथ पुलिस शिकायत दर्ज करे।

Customer Service Toll free:1800-425-6969 (8:00 am to 8:00 pm)

Mall us at Indiaservice@pnbmetlife.co.in

ग्राहक सेवा नि:शुल्क: 1800-425-6969 (पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 8:00 बजे)

हमें इस पर मेल करें indiaservice@pnbmetlife.co.in